



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 188]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 23, 2005/फाल्गुन 4, 1926

No. 188]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 23, 2005/PHALGUNA 4, 1926

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2005

का.आ. 243 (अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 439 (अ) तारीख 31 मार्च, 2004, को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा बिहार राज्य के गोपालगंज जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-28 के 360.570 कि.मी. से 520.000 कि.मी. (उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा - मुजफ्फरपुर) तक के भूखण्ड पर संनिर्माण करने (चौड़ा करने) के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और, उक्त अधिसूचना का सार “हिन्दुस्तान” (हिन्दी दैनिक) तारीख 10 जुलाई, 2004, और “दि टाइम्स आफ इंडिया” (अंग्रेजी दैनिक) तारीख 18 जुलाई, 2004 में प्रकाशित किया गया था ;

और, सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त भूमि में हितबद्ध किसी भी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है ;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना है ;

और, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित होगी ।

अनुसूची

बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-28 के 360.570 कि.मी. से 520.000 कि.मी. तक (उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा — मुजफ्फरपुर सेक्शन) को चौड़ा करने के लिए अर्जन की जाने वाली भूमि का संरचना सहित अथवा संरचना रहित संक्षिप्त वर्णन ।

राज्य : बिहार

जिला : गोपालगंज

क्रम सं.	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण भूखण्ड सं.	भूमि का प्रकार	भूमि की श्रेणी	अर्जित की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	भूमि मालिक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	सिधवालिया	(1) बरहिमा	175 (बाँयी तरफ)	निजी	कृषि	0.034	भोलई तेली बल्द दिनु, जमुना, रैना, पेस राय इत्यादि, कल्याणपुर मथिया
			176	निजी	कृषि	0.087	भोलई तेली बल्द दिनु, जमुना, रैना, पेस राय इत्यादि, कल्याणपुर मथिया
			177	निजी	कृषि	0.104	मोती तेली, जानकी, पेनी पेसराउ, काम तेली, कल्याणपुर मधुवनी, मथिया
			178	निजी	कृषि	0.071	लोटन कोयरी बल्द धुपारी कम कोयरी, देह
			182	निजी	कृषि	0.193	देशाई तेली बल्द भज्ज कम तेली, कल्याणपुर मथिया
			183	निजी	कृषि	0.010	देशाई तेली बल्द भज्ज कम तेली, कल्याणपुर मथिया
			184	निजी	कृषि	0.036	दुकार लोहार बल्द शिवधारी डामा बल्द भावशी, कल्याणपुर मथिया
			185	निजी	कृषि	0.036	दुकार लोहार बल्द, शिवधारी डामा बल्द भावशी, कल्याणपुर मथिया
			186	निजी	कृषि	0.058	लीलाधर नोनिया इत्यादि, ग्राम वासी
			187	निजी	कृषि	0.010	लीलाधर नोनिया इत्यादि, ग्राम वासी
			191	निजी	कृषि	0.973	महंथ गुरुवरणदास, चेला रायदास, कल्याणपुर मथिया
			556	निजी	कृषि	0.189	हरिहर दुवे बल्द रैयद दुवे काम, मथिया
			557	निजी	कृषि	0.117	भुलकु पांडे बल्द जुरी पांडे, रायशीश पांडे, खेदन पांडे, सिगरी पांडे, मथिया
		(2) गोपालपुर	210 (बाँयी तरफ)	निजी	कृषि	0.004	रायस्वरूप, गोपी सिंह, गोपालपुर
			211	निजी	कृषि	0.261	हरी प्रसाद, सखीचन पेसराज बनका, देह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			212	निजी	कृषि	0.017	कतियानी रैयाह, शोमना सिंह, डॉ सनत सिंह, देह
			258	निजी	कृषि	0.359	जोखन सिंह बल्द दलमारदन सिंह, विदया सिंह बल्द रोजहन सिंह, देह
			259	निजी	कृषि	0.172	रोमण सिंह बल्द शिवगुलाम सिंह, सरयुग सिंह बल्द गंगा सिंह देह
			260	निजी	कृषि	0.075	वकासत खोरीसदर
			261	निजी	कृषि	0.046	मुशहर कानु बल्द वोधी, वरण कानु बल्द गोपी, चतुरी, मंगला पेसरन
			262	निजी	कृषि	0.150	शोभन सिंह बल्द संत सिंह, देह
			263	निजी	कृषि	0.078	गंगा सिंह बल्द फकीर सिंह, देह
			266	निजी	कृषि	0.033	वकासत खोरीसदर
			267	निजी	कृषि	0.037	मुसमात बचानी कानूईन, देह
			270	निजी	कृषि	0.121	महावीर, मंगल घोषी बल्द यदराई, देह
			272	निजी	कृषि	0.050	सौदागर सिंह बल्द भुसन सिंह, देह
			273	निजी	कृषि	0.070	धुरण कोयरी बल्द तिलक
			274	निजी	कृषि	0.085	सुंदर कोयरी बल्द रायलगान
			845	निजी	कृषि	0.105	लालचंद घोषी बल्द स्व जितन, गोपालपुर
			846	निजी	कृषि	0.019	धोरण कोयरी बल्द तिलक, गोपालपुर
2	कुचईकोट	(1) भत्यारूप	197(बांयी तरफ)	निजी	कृषि	0.042	भागवत तिवारी, भटवारूप
			196	निजी	कृषि	0.034	भागवत तिवारी, भटवारूप
			206	निजी	कृषि	0.008	भूषण तिवारी इत्यादि
			205	निजी	कृषि	0.004	भूषण तिवारी
			208	निजी	कृषि	0.008	सपन चमार इत्यादि
			210	निजी	कृषि	0.010	चौधुर अहीर इत्यादि
			211	निजी	कृषि	0.009	चौधुर अहीर इत्यादि
			252	निजी	कृषि	0.004	चौधुर अहीर इत्यादि
			279	सरकारी		0.001	गैरमजरूआ, बिहार सरकार
			307	निजी	कृषि	0.007	राम स्वरूप अहीर
			198(दांयी तरफ)	निजी	कृषि	0.037	छपसी अहीर इत्यादि
			202	निजी	कृषि	0.015	भागवत तिवारी, भत्यारूप
			203	निजी	कृषि	0.029	मनीर तिवारी इत्यादि

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			214	निजी	कृषि	0.001	भिन्नोद तिवारी इत्यादि
			213	निजी	कृषि	0.023	रतन तिवारी इत्यादि
			212	निजी	कृषि	0.014	रतन तिवारी इत्यादि
			246	निजी	कृषि	0.001	भिन्नोद तिवारी इत्यादि
			251	निजी	कृषि	0.009	रामराज अहीर इत्यादि भटवारूप
			253	निजी	कृषि	0.007	रामलाल अहीर इत्यादि भटवारूप
			254	निजी	कृषि	0.002	लखन अहीर, भटवारूप
			257	निजी	कृषि	0.001	रामराज अहीर इत्यादि भटवारूप
		(2) कुचईकोट	18(बांयी तरफ)	निजी	कृषि	0.007	करमुरे इत्यादि, ग्राम करमैनी
			52	निजी	कृषि	0.041	किशनदत्त पांडे, बंकटा
			51	निजी	कृषि	0.004	किशनदत्त पांडे, बंकटा
			65	निजी	कृषि	0.012	हेमराज पांडे, बंकटर
			63	निजी	कृषि	0.019	त्रिभुवन पाठक, कुचईकोट
			54	निजी	कृषि	0.006	धुल कुहार, पहाडपुर
			61	निजी	कृषि	0.045	जगतराय इत्यादि साकिन कुचईकोट
			102	निजी	कृषि	0.019	रामकिशुन पाठक, कुचईकोट
			101	निजी	कृषि	0.001	त्रिभुवन पाठक, कुचईकोट
			103	निजी	कृषि	0.002	उदित पाठक, कुचईकोट
			104	निजी	कृषि	0.026	श्रीकांत पाठक, कुचईकोट
			107	निजी	कृषि	0.026	विकास जरपेशगिदर
			106	निजी	कृषि	0.005	रघु कुंकर, करमैनी
			108	निजी	कृषि	0.013	बृज किशोर राय
			110	निजी	कृषि	0.047	बृज किशोर राय
			112	निजी	कृषि	0.020	बृज किशोर राय
			113	निजी	कृषि	0.008	बृज किशोर राय
			114	निजी	कृषि	0.001	बृज किशोर राय
			19(दांयी तरफ)	निजी	कृषि	0.010	रामवृक्ष राय इत्यादि, ग्राम शिशवा
			50	सरकारी	बंजर	0.007	गैरमजरूआ, बिहार सरकार
			53	निजी	कृषि	0.002	रिखई महतो इत्यादि करमैनी
			52	सरकारी	बंजर	0.020	गैरमजरूआ
			65	निजी	कृषि	0.008	पल्टू दुसाई, कुचईकोट

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			66	निजी	कृषि	0.008	रुखाई महतो
			64	निजी	कृषि	0.042	चंद्रिका पाठक, कुचईकोट
			70	निजी	कृषि	0.009	देवी महतो, कुचईकोट
			100	निजी	कृषि	0.019	नंदकुमार इत्यादि, कुचईकोट
			99	निजी	कृषि	0.058	नंद कुमार पाठक, कुचईकोट
			98	निजी	कृषि	0.003	नंदकुमार इत्यादि, कुचईकोट
			97	निजी	कृषि	0.013	नंदकुमार पाठक, कुचईकोट
			111	निजी	कृषि	0.001	बृज किशोर राय
			112	निजी	कृषि	0.018	बृज किशोर राय, कुचईकोट
			113	निजी	कृषि	0.021	बृज किशोर राय, कुचईकोट
			115	निजी	कृषि	0.069	रुदल पाठक इत्यादि, कुचईकोट
			116	निजी	कृषि	0.024	बृज किशोर राय, कुचईकोट
			117	निजी	कृषि	0.032	बृज किशोर राय, कुचईकोट
			118	निजी	कृषि	0.010	बृज किशोर राय, कुचईकोट
		(3) करमौनी मोहब्बत	706	निजी	कृषि	0.045	कुंजा राम इत्यादि, साकिन करमौनी मोहब्बत
			705	निजी	कृषि	0.027	दमरी राय इत्यादि, साकिन करमौनी मोहब्बत
			709	निजी	कृषि	0.009	गुलज़र राय इत्यादि, करमौनी मोहब्बत
			710	निजी	कृषि	0.029	कुंजा राम इत्यादि, साकिन करमौनी मोहब्बत
			716	सरकारी	बंजर	0.009	गैरमजूरुआ, बिहार सरकार
			711	निजी	मकान	0.038	दमरी राय इत्यादि, साकिन करमौनी मोहब्बत
			718	निजी	मकान	0.049	दमरी राय इत्यादि, साकिन करमौनी मोहब्बत
			725	निजी	कृषि	0.004	दमरी राय इत्यादि, साकिन करमौनी मोहब्बत
			728	निजी	कृषि	0.023	कुंजा राम इत्यादि, साकिन करमौनी मोहब्बत
			727	निजी	कृषि	0.023	फुलना राय, करमौनी
			726	निजी	कृषि	0.025	गुलज़र राय इत्यादि, करमौनी मोहब्बत
			732	सरकारी	बंजर	0.008	गैरमजूरुआ, बिहार सरकार
			733	सरकारी	बंजर	0.030	गैरमजूरुआ, बिहार सरकार
			736	निजी	मकान	0.075	गोरख राय करमौनी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			735	निजी	मकान	0.012	भजरन राय, करमैनी
			737	निजी	मकान	0.017	रामस्वरूप राय
			738	निजी	मकान	0.030	चतराधारी राय, करमैनी
			1435	निजी	मकान	0.001	शिवधर राय करमैनी
			1434	निजी	मकान	0.103	भजरन राय, करमैनी
			1433	निजी	मकान	0.045	तिलकधारी राय इत्यादि करमैनी
			1430	निजी	मकान	0.056	तिलकधारी राय इत्यादि करमैनी
			1444	निजी	कृषि	0.028	यमुना राय इत्यादि करमैनी
			1446	निजी	कृषि	0.025	दीपक राय इत्यादि
			1445	निजी	कृषि	0.034	मंसुखरख कुंकर इत्यादि करमैनी
			1519	निजी	कृषि	0.012	पितम्बर राय इत्यादि करमैनी
			1518	निजी	कृषि	0.071	पितम्बर राय इत्यादि करमैनी
			1513	निजी	कृषि	0.031	भजरन राय, करमैनी
			1512	निजी	कृषि	0.024	शिवशंकर तिवारी इत्यादि भटवारूप
			1511	निजी	कृषि	0.088	शिवशंकर तिवारी इत्यादि भटवारूप
			1542	निजी	कृषि	0.035	दमरी राय इत्यादि साकिन करमैनी मोहब्बत
			1543	सरकारी	बंजर	0.015	गैरमजरूआ, बिहार सरकार
			1544	निजी	कृषि	0.035	फुलना राय, करमैनी
			1573	निजी	कृषि	0.015	दमरी राय इत्यादि साकिन करमैनी मोहब्बत
			1545	निजी	कृषि	0.051	दमरी राय इत्यादि साकिन करमैनी मोहब्बत
			1506	निजी	कृषि	0.020	भजरन राय, करमैनी
			1505	निजी	मकान	0.023	तिलकधारी राय इत्यादि करमैनी
			708(दांयी तरफ)	निजी	कृषि	0.031	फुलना राय, करमैनी
			716	सरकारी	रोड	0.009	गैरमजरूआ, बिहार सरकार
			720	निजी	मकान	0.037	गुलजर राय इत्यादि करमैनी मोहब्बत
			721	निजी	मकान	0.004	फुलना राय, करमैनी
			724	निजी	मकान	0.031	गुलजर राय इत्यादि करमैनी मोहब्बत

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			725	निजी	मकान	0.062	दमरी राय इत्यादि साकिन करमैनी मोहब्बत
			732	सरकारी	बंजर	0.009	गैरमजरूआ, बिहार सरकार
			733	सरकारी	बंजर	0.163	गैरमजरूआ, बिहार सरकार
			735	निजी	मकान	0.008	भजन राय, करमैनी
			734	निजी	मकान	0.038	चतराधारी राय, करमैनी
			1436	निजी	मकान	0.007	चतराधारी राय, करमैनी
			1439	निजी	मकान	0.048	रघु कुंकर, करमैनी
			1440	निजी	मकान	0.017	फुलना राय, इत्यादि करमैनी मोहब्बत
			1442	निजी	मकान	0.056	फुलना राय, इत्यादि (करमैनी मोहब्बत)
			1443	निजी	मकान	0.008	फुलना राय, इत्यादि (करमैनी मोहब्बत)
			1518	निजी	कृषि	0.086	पितम्बर राय इत्यादि करमैनी
			1514	निजी	कृषि	0.005	गुलज्जर राय इत्यादि करमैनी मोहब्बत
			1515	निजी	कृषि	0.015	फुलना राय, इत्यादि करमैनी मोहब्बत
			1517	निजी	कृषि	0.015	फुलना राय, इत्यादि (करमैनी मोहब्बत)
			1516	निजी	कृषि	0.029	रूपा राय, करमैनी
			1537	निजी	कृषि	0.071	सीताराम राय करमैनी
			1538	निजी	कृषि	0.012	फुलना राय इत्यादि करमैनी मोहब्बत
			1539	निजी	कृषि	0.033	सेवक अहिर, भटवारूप
			1511	निजी	कृषि	0.142	शिवशंकर तिवारी इत्यादि भटवारूप
			1541	निजी	कृषि	0.030	सेवक अहिर, भटवारूप
			1550	निजी	कृषि	0.057	यमुना राय इत्यादि करमैनी
			1549	निजी	कृषि	0.014	शिवशंकर तिवारी इत्यादि भटवारूप
			1546	निजी	कृषि	0.036	सेवक अहिर, भटवारूप
			1547	निजी	कृषि	0.028	साईल तिवारी इत्यादि भटवारूप

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**(Department of Road Transport and Highways)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd February, 2005

S.O. 243(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the then Ministry of Road Transport and Highways, number S. O. 439(E), dated 31st March, 2004, issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule appended to that notification for the public purpose of construction (widening) of National Highway No. 28 in the stretch from Km. 360.570 to Km. 520.000 (Uttar Pradesh/Bihar Border – Muzaffarpur) in the District of Gopalganj, in the State of Bihar;

And whereas, the substance of the said notification was published in “The Hindustan” (a Hindi daily) dated 10th July, 2004 and in “The Times of India” (an English daily) dated 18th July, 2004;

And whereas no objections were received by the competent authority from any person interested in the said land;

And whereas in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that, on the publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of land with or without structure to be acquired for widening of National Highway No. 28 from Km. 360.570 to Km. 520.000 (UP/Bihar Border – Muzaffarpur section) in the State of Bihar

State : Bihar

District: Gopalganj

Sl. No.	Name of Taluk	Name of Village	Survey Plot No.	Type of Land	Category of Land	Area to be acquired (in Hectare)	Name of Land Owner/ Interested Person
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sindhwalia	(1) Barahima	175 (Right)	Private	Agriculture	0.034	Bholai Teli wald Dinu, Jamuna, Raiana, PeshRai etc. (Kalyanpur Mathiya)
			176	Private	Agriculture	0.087	Bholai Teli wald Dinu, Jamuna, Raiana, PeshRai etc. (Kalyanpur Mathiya)
			177	Private	Agriculture	0.104	Moti Teli, Janki, Peni Peshraw, Kaum Teli, (Kalyanpur Madhubani)
			178	Private	Agriculture	0.071	Lotan Koyari wald Dhupari Kam Koyari (Deh)
			182	Private	Agriculture	0.183	Dashai Teli wald Bhajju Kaum Teli (Kalyanpur Mathiya)
			183	Private	Agriculture	0.010	Dashai Teli wald Bhajju Kaum Teli (Kalyanpur Mathiya)
			184	Private	Agriculture	0.036	Dukar Lohar wald Shiv dhari, Doma wald Bhawshi (Kalyanpur Mathiya)
			185	Private	Agriculture	0.036	Dukar Lohar wald Shivdhari, Doma wald Bhawshi (Kalyanpur Mathiya)
			186	Private	Agriculture	0.058	Liladhar Noniya etc. (Gram washi)
			187	Private	Agriculture	0.010	Liladhar Noniya etc. (Gram washi)
			191	Private	Agriculture	0.973	Mahanth, Gurucharandas, Chela Raidash (Kalyanpur Mathiya)
			556	Private	Agriculture	0.189	Harihar dubey wald Raiyad dubey (Mathiya)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			557	Private	Agriculture	0.117	Bhuluku Pandey wald Juri Pandey, Raiashih Pandey, Khedan Pandey, Shigari Pandey (Mathiya)
		(2) Gopalpur	210 (Left)	Private	Agriculture	0.004	Raiswarup, Gopi Singh (Gopalpur)
			211	Private	Agriculture	0.261	Hari Prasad, Sakhichan Peshraj Banka (Deh)
			212	Private	Agriculture	0.017	Katiyani Raiyah, Sobhana Singh, Dr. Sanat Singh (Deh)
			258	Private	Agriculture	0.359-	Jokhan Singh wald Dalmardan Singh, Vidya Singh wald Rojhan Singh (Deh)
			259	Private	Agriculture	0.172	Roman Singh wald Shivgulam Singh, Saryug Singh wald Ganga Singh (Deh)
			260	Private	Agriculture	0.075	Wakashat Khorisadar
			261	Private	Agriculture	0.046	Mushar Kanu wald Wodhi, Waran Kanu wald Gopi, Chaturi, Mangala Peshran
			262	Private	Agriculture	0.150	Sobhan Singh wald Sanat Singh (Deh)
			263	Private	Agriculture	0.078	Ganga Singh wald Fakir Singh (Deh)
			266	Private	Agriculture	0.033	Wakashat Khorisadar
			267	Private	Agriculture	0.037	Musmat Bachani Kanuein (Deh)
			270	Private	Agriculture	0.121	Mahavir, Mangal Dhobi wald Yadu Rai (Deh)
			272	Private	Agriculture	0.050	Saudagar Singh wald Bhushan Singh (Deh)
			273	Private	Agriculture	0.070	Dhuran Koyari wald Tilak
			274	Private	Agriculture	0.085	Sundar Koyari wald Railagan
			845	Private	Agriculture	0.105	Lalchand Dhobi S/o Late Jitan (Gopalpur)
			846	Private	Agriculture	0.019	Dhoran Koyari S/o Tilak (Gopalpur)
2	Kucharkot	(1) Bhatwarup	197(Left)	Private	Agriculture	0.042	Bhagwat Tiwari (Bhatwarup)
			196	Private	Agriculture	0.034	Bhagwat Tiwari (Bhatwarup)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			206	Private	Agriculture	0.008	Bhushan Tiwari etc
			205	Private	Agriculture	0.004	Bhushan Tiwari
			208	Private	Agriculture	0.008	Sapan chamar etc.
			210	Private	Agriculture	0.010	Chaudhur Ahir etc.
			211	Private	Agriculture	0.009	Chaudhur Ahir etc.
			252	Private	Agriculture	0.004	Chaudhur Ahir etc.
			279	Government	Road	0.001	Gairmajurua, Stat Government
			307	Private	Agriculture	0.007	Ram Sawroop Ahir
			198 (Right)	Private	Agriculture	0.037	Chapsni Aahir etc
			202	Private	Agriculture	0.015	Bhagwat Tiwari (Bhatwarup)
			203	Private	Agriculture	0.029	Manir Tiwari etc.
			214	Private	Agriculture	0.001	Binod Tiwari etc.
			213	Private	Agriculture	0.023	Ratan Tiwari etc.
			212	Private	Agriculture	0.014	Ratan Tiwari etc.
			246	Private	Agriculture	0.001	Binod Tiwari etc.
			251	Private	Agriculture	0.009	Ramraj Aahir etc (Bhatwarup)
			253	Private	Agriculture	0.007	Ramlal Aahir etc, (Bhatwarup)
			254	Private	Agriculture	0.002	Lakhan Aahir (Bhatwarup)
			257	Private	Agriculture	0.001	Ramraj Aahir etc (Bhatwarup)
		(2) Kuchaikot	18(Left)	Private	Agriculture	0.007	Karmuray etc. Gram Karmaini
			52	Private	Agriculture	0.041	Kishandat Pandey Bankatta
			51	Private	Agriculture	0.004	Kishandat Pandey Bankatta
			65	Private	Agriculture	0.012	Hem Raj Pandey Bankatta
			63	Private	Agriculture	0.019	Tribhuwan Pathak (Kuchaikot)
			54	Private	Agriculture	0.006	Dhul Kohar Paharpur
			61	Private	Agriculture	0.045	Jagatray etc Sakin (Kuchaikot)
			102	Private	Agriculture	0.019	Ramkishun Pathak (Kuchaikot)
			101	Private	Agriculture	0.001	Tribhuwan Pathak (Kuchaikot)
			103	Private	Agriculture	0.002	Udit Pathak (Kuchaikot)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			104	Private	Agriculture	0.026	Srikant Pathak (Kuchaikot)
			107	Private	Agriculture	0.026	Vikash Jarpeshgidar
			106	Private	Agriculture	0.005	Raghu Kunkar, karmaini
			108	Private	Agriculture	0.013	Braj Kishor Rai
			110	Private	Agriculture	0.047	Brajkishore Ray
			112	Private	Agriculture	0.020	Baraj Kishor Rai
			113	Private	Agriculture	0.008	Baraj Kishor Rai
			114	Private	Agriculture	0.001	Brajkishore Ray
			19(Right)	Private	Agriculture	0.010	Rambriksn Ray etc, Gram Siswa
			50	Government	Barren	0.007	Gairmajarua State Government
			53	Private	Agriculture	0.002	Rikhaj Mahto etc, karmaini
			52	Government	Barren	0.020	Gair Magurha
			65	Private	Agriculture	0.008	Paltu Dushad (Kuchaikot)
			66	Private	Agriculture	0.008	Rukhani Mahto
			64	Private	Agriculture	0.042	Chandrika Pathak, (Kuchaikot)
			70	Private	Agriculture	0.009	Devi Mahto (Kuchaikot)
			100	Private	Agriculture	0.019	Nandkumar etc, (Kuchaikot)
			99	Private	Agriculture	0.058	Nandkumar Pathak etc. (Kuchaikot)
			98	Private	Agriculture	0.003	Nand Kumar Pathak etc.
			97	Private	Agriculture	0.013	Nandkumar Pathak etc. (Kuchaikot)
			111	Private	Agriculture	0.001	Braj Kishore Rai
			112	Private	Agriculture	0.018	Brajkishore Ray (Kuchaikot)
			113	Private	Agriculture	0.021	Brajkishore Ray (Kuchaikot)
			115	Private	Agriculture	0.069	Rudal Pathak etc (Kuchaikot)
			116	Private	Agriculture	0.024	Brajkishore Ray ,Kuchaikot
			117	Private	Agriculture	0.032	Brajkishore Ray (Kuchaikot)
			118	Private	Agriculture	0.010	Brajkishore Ray (Kuchaikot)
		(3) Karmauni Mohabbat	706	Private	Agriculture	0.045	Kunja Ram etc. Sakim karmaini Mohabbat

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			705	Private	Agriculture	0.027	Damri Ray etc Sakim karmaini Mohabbat
			709	Private	Agriculture	0.009	Guljar Rai etc. Karmaini Mohabbat
			710	Private	Agriculture	0.029	Kunja Ram etc. Sakim karmaini Mohabbat
			716	Government	Barren	0.009	Gairamjarua State Government
			711	Private	Built Up	0.038	Damri Ray etc Sakim karmaini Mohabbat
			718	Private	Built Up	0.049	Damri Ray etc Sakim karmaini Mohabbat
			725	Private	Agriculture	0.004	Damri Ray etc Sakim karmaini Mohabbat
			728	Private	Agriculture	0.023	Kunja Ram etc. Sakim karmaini Mohabbat
			727	Private	Agriculture	0.023	Phulna Ray, Karmaini
			726	Private	Agriculture	0.025	Guljar Rai etc. Karmaini Mohabbat
			732	Government	Barren	0.008	Gairamjarua State Government
			733	Government	Barren	0.030	Gairamjarua State Government
			736	Private	Built Up	0.075	Gorakhray, Karaini
			735	Private	Built Up	0.012	Bhajarn Ray, Karmaini
			737	Private	Built Up	0.017	Ram Sarup Rai
			738	Private	Built Up	0.030	Chatradhari Ray, Karmaini
			1435	Private	Built Up	0.001	Shivdhar Ray Karmaini
			1434	Private	Built Up	0.103	Bhajarn Ray, Karmaini
			1433	Private	Built Up	0.045	Tilakdhari Ray, etc Karmaini
			1430	Private	Built Up	0.056	Tilakdhari Ray, etc Karmaini
			1444	Private	Agriculture	0.028	Yamuna Ray etc, Karmaini
			1446	Private	Agriculture	0.025	Deepak Ray etc.
			1445	Private	Agriculture	0.034	Mansukhrak kunkar etc karmaini
			1519	Private	Agriculture	0.012	Pitambar Ray, etc Karmaini
			1518	Private	Agriculture	0.071	Pitambar Ray, etc Karmaini
			1513	Private	Agriculture	0.031	Bhajan Ray, Karmaini
			1512	Private	Agriculture	0.024	Shivshankar Tiwari etc, Bhatwarup

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1511	Private	Agriculture	0.088	Shivshankar Tiwari etc, Bhatwarup
			1542	Private	Agriculture	0.035	Damri Ray etc Sakim Karmaini Mohabbat
			1543	Government	Barren	0.015	Gairmajarua State Government
			1544	Private	Agriculture	0.035	Phulena Ray, etc. Karmaini Mohabbat
			1573	Private	Agriculture	0.015	Damri Ray etc, Sakim karmaini Mohabbat
			1545	Private	Agriculture	0.051	Damri Ray etc Sakim karmaini Mohabbat
			1506	Private	Agriculture	0.020	Bhajan Ray, karmaini
			1505	Private	Built Up	0.023	Tilakdhari Ray, etc Karmaini
			708 (Right)	Private	Agriculture	0.031	Phulena Ray, etc. Karmaini Mohabbat
			716	Government	Road	0.009	Gairmajarua State Government
			720	Private	Built Up	0.037	Guljar Rai etc. Karmaini Mohabat
			721	Private	Built Up	0.004	Phulena Ray, etc. Karmaini Mohabbat
			724	Private	Built Up	0.031	Guljar Rai etc. Karmaini Mohabat
			725	Private	Built Up	0.062	Damri Ray etc Sakim Karmaini Mohabbat
			732	Government	Barren	0.009	Gairmajarua State Government
			733	Government	Barren	0.163	Gairmajarua State Government
			735	Private	Built Up	0.008	Bhajan Ray, Karmaini
			734	Private	Built Up	0.038	Chatradhari Ray, Karmaini
			1436	Private	Built Up	0.007	Chatradhari Ray, Karmaini
			1439	Private	Built Up	0.048	Raghu Kunkar, Karmaini
			1440	Private	Built Up	0.017	Phulena Ray, etc. Karmaini Mohabbat
			1442	Private	Built Up	0.056	Phulena Ray (Karmaini Mohabbat)
			1443	Private	Built Up	0.008	Phulena Ray (Karmaini Mohabbat)
			1518	Private	Agriculture	0.086	Pitambar Ray, etc Karmaini
			1514	Private	Agriculture	0.005	Guljar Rai etc. Karmaini Mohabat

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1515	Private	Agriculture	0.015	Phulena Ray, etc. Karmaini Mohabbat
			1517	Private	Agriculture	0.015	Phulena Ray etc. (Karmaini Mohabbat)
			1516	Private	Agriculture	0.029	Rupa Ray, Karmaini
			1537	Private	Agriculture	0.071	Sita Ram Ray (Karmainee)
			1538	Private	Agriculture	0.012	Phulena Ray, etc. Karmaini Mohabbat
			1539	Private	Agriculture	0.033	Sevak Aahir, Bhatwarup
			1511	Private	Agriculture	0.142	Shivshankar Tiwari etc, Bhatwarup
			1541	Private	Agriculture	0.030	Sevak Aahir, Bhatwarup
			1550	Private	Agriculture	0.057	Yamuna Ray etc, Karmaini
			1549	Private	Agriculture	0.014	Shivshankar Tiwari etc, Bhatwarup
			1546	Private	Agriculture	0.036	Sevak Aahir, Bhatwarup
			1547	Private	Agriculture	0.028	Sile Tiwari, etc. Bhatwarup

[F. No. NHA/40020/2/C-III/2002/Tech-III/GPL]

ALOK RAWAT, Jt. Secy.